

ऋषि जब तुम नेपाल से लौटे तब तम्हारी माँ ने क्या कहा फ़ोन पर ?

प्रताप उन्होंने कहा कि आगे चलकर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।

ऋषि जब तक तुम हमारे यहाँ रहोगे तब तक तुम्हें हिन्दी ही बोलनी चाहिए।

प्रताप हाँ, जब से भारत आया हूँ तब से मैं हिन्दी ही बोल रहा हूँ।

ऋषि और जैसे ही तुम लन्दन लौटोगे वैसे ही अपनी हिन्दी को भूल जाओगे !

प्रताप नहीं, जब तक मैं हिन्दी ठीक से नहीं सीलूँगा तब तक मुझे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है ।

ऋषि लंदन वापस जाकर तुमको कुछ हिन्दी-बोलनेवाले दोस्तों से मिलकर बात करनी चाहिए।

प्रताप यही करूँगा । और आज तो “जब”-वाले वाक्यों का अच्छा अभ्यास हुआ है !

Ṛshi cab tum nepal se laṭe tumhārī māñ ne qyā kahā foun par?

Pratāp unhoñne kahā ki āge çalkar muche bahut mehnat karnī paṛegī.

Ṛshi cab tak tum hamāre yahāñ rhaoge tab tak tumheñ hindī hī bolnī çāhie.

Pratāp hāñ, cab se bhārat āyā hūñ tab se maiñ hindī hī bol rahā hūñ.

Ṛshi aur caise hi tum landan laṭoge vaise hi apnī hindī ko bhūl cāoge!

Pratāp nahīn?, cab tak maiñ hindī thīk se nahīñ sīkhūñgā tab tak muche apnī paṛhāī ko cārī rakhnā hai.

Ṛshi landan vāpas cākar tumko kuç hindī-bolnevale doston milkar karnī çāhie.

Pratāp yahī karūñgā. aur āc to "cab"-bole vākyon kā aççhā abhyās huā hai!

1- Metnin gramatik analizi yapılarak metin içinde geçen kelimeleri öğrenmek.